



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 भाद्र, 1941 (श०)

संख्या- 709 राँची, मंगलवार, 03 सितम्बर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

19 अगस्त, 2019

आदेश संख्या-5/आरोप-1-62/2019 का.-6575 -- एन०आई०सी०, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन में श्री सुनील चन्द्र, झा०प्र०से० (तृतीय बैच), अंचल अधिकारी, बुढ़मू, राँची द्वारा अपने अंचल में 30 दिनों से अधिक के 76 मामलों में जाति प्रमाण लम्बित रखा गया जबकि सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु अधिकतम 30 कार्य दिवस का प्रावधान किया गया है।

श्री चन्द्र के स्तर पर जाति प्रमाण पत्र लंबित रहने के कारण विभागीय पत्रांक-5447, दिनांक 10.07.2019 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री चन्द्र के पत्रांक-190, दिनांक 12.07.2019 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है, जिसमें इनके द्वारा उल्लेख किया गया कि 76 जाति प्रमाण पत्र का निष्पादन दिनांक 07.07.2019 को कर दिया गया है।

एन०आई०सी०, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन में मांडर अंचल में 30 दिनों से अधिक अवधि का मामला शून्य प्रतिवेदित किया गया है।

श्री चन्द्र द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं एन०आई०सी०, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत भविष्य में सचेत करने की चेतावनी के साथ इनके स्पष्टीकरण को स्वीकार किया जाता है।

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
